

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, शनिवार, अश्विन 9, 1977, आश्विन 9, 1899

No. 430] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1977/ASVINA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS

ORDER

New Delhi, the 1st October 1977

S.O. 705(E)—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 9 of the Smith, Stanistreed and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1977 (13 of 1977), the Central Government hereby appoints, with effect from the appointed day and until further orders, Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, a Government Company having its registered office at N-12, South Extension, Part-I, New Delhi 49, as the Custodian of the Undertakings of Messrs Smith, Stanistreed and Company Limited, having its registered office at 18, Convent Road, Calcutta-14, which have vested in the Central Government under section 3 of the said ordinance.

[No. L 42014(2)/77-DC]

M. VARADARAJAN, Joint Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1977

का०आ० 705(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्मिथ, स्टानिस्ट्रीड एंड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1977 (1977 का 13) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एन-12, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-49⁴ म है, को, मैसर्स स्मिथ, स्टानिस्ट्रीड एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 18 कान्वट रोड, कलकत्ता-14 में है, के उपक्रमों का, जो उक्त अध्यादेश की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, नियत दिन से और आगे आदेश होने तक, अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[सं० एन 42014 (2) 77-डी०सी०]

एन० वरदाराजन, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD.
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977